



ओ३म् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा ।  
शन्नोऽन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॥

Rgveda 1, 90, 9 : Taittiriya Upanishad : Shanti Path

Mayest Thou (AUM) O God, Who art (Mitra), Friend of all, (Varuna) Holiest of all, and (Āryamā) Controller of the Universe, be merciful unto us. Mayest thou (Indra) O Lord Almighty, (Brihaspati) the Lord of the Universe, the support of all, endow us with knowledge and power. Mayest thou (Vishnu) O Omnipresent and (Urukrama) Omnipotent Being, shower Thy blessings all around us.

### From the Chief Editor's Desk

#### Thought of the week

A wise man, when he writes a book, sets forth his arguments fully and clearly; an enlightened ruler, when he makes his laws, sees to it that every contingency is provided for in detail.

Han Fei

## Duties and Qualifications of Rulers

Dr Oudaye Narain Gangoo, GOSK, Arya Ratna

All the teachings of Maharshi Dayananda Saraswati are based on the Vedas and the scriptures written by sages and seers. He states, "My conception of God and all other objects in the universe is founded on the teachings of Veda and other true shastrās, and in conformity with the beliefs of all sages, from Brahma down to Jaimini." (Satyarthaprakāsha – A statement of my beliefs)

In chapter six of the Satyarthaprakasha, besides quoting from the Rigveda, Yajurveda and Atharvaveda, Maharshi Dayananda has profusely quoted from the 'Manusmriti' to deal with the science of government.

At the very outset of this chapter, he quotes a verse from the Manusmriti whose meaning reads, "Let a Kshatriya, whose knowledge, culture and piety are perfect govern the country with perfect justice." (Manusmriti 7/3)

Manu was the first law-giver of ancient India. According to him, human beings are divided into four classes, due to their knowledge, ability and merits. A 'Kshatriya' is he who is well-versed in the science of government, brave, fearless and ready to give up his life for the protection of his motherland. He states that one who lacks the knowledge of political science, bravery, fearlessness, justice and piety is not fit to be chosen as a ruler.

Nowadays, in almost all countries of the world the heads of parliament are either Prime Ministers or Presidents. In olden times the heads of states were kings. Their kingdoms were regarded as ideals where existed the rule of law.

#### The Real King

Emphasizing on the importance of law and order, Manu states, "the law alone is the real king, the disciplinarian. The Law alone is the true Governor that maintains

order among the people. The Law alone is their protector. The Law keeps awake whilst all the people are fast asleep. The wise, therefore, look upon the Law alone as Dharma or Right. When rightly administered the Law makes all men happy but when administered wrongly, i.e., without due regard to the requirement of justice, it ruins the king. All the four Classes would become corrupt, all order would come to an end, there would be nothing but chaos and corruption if the Law were not properly enforced. Where the Law – which is likened unto a fear-inspiring man, black in colour and with red eyes – striking fear into the hearts of the people (evil) and preventing them from committing crimes, rules supreme, there the people never go astray, and consequently they live in happiness if it be administered by a just and learned man. He alone is considered a fit person to administer the Law by the wise, who invariably speaks the truth, is thoughtful, highly intellectual and very clever in the attainment of virtue, wealth and righteous desires. The Law rightly administered by the king greatly promotes the practice of virtue, acquisition of wealth and secures the attainment of the heart-felt desires of his people. But the same Law destroys the king who is sensual, indolent, crafty, malevolent, mean and low-minded." Great is the power and majesty of the Law. It cannot be administered by a man who is ignorant and unjust. It surely brings the downfall of the king who deviates from the path of rectitude.

The Law can never be justly administered by a man who is destitute of learning and culture, has no wise and good men to assist him, and is sunk in sensualism. He alone is fit to administer the Law --- which is another name for justice – who is wise, pure in heart, of

सम्पादकीय

## जलवायु परिवर्तन

समस्त प्राणियों पर जल-वायु का गहरा असर पड़ता है। शुद्ध जलवायु के आधार पर प्राणी मात्र का स्वास्थ्य ठीक होता है और उसका विकास निश्चित होता है। जलवायु यदि हमारे अनुकूल न हो तो उसके दुष्प्रभाव से हम पीड़ित होते हैं। अतः शुद्ध जलवायु हमारे विकास एवं स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। आज विश्व में जलवायु परिवर्तन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी प्राणियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके असर से सर्वत्र हलचल मची हुई है, क्योंकि Climate Change के कारण धरती के तापमान में बदलाव आ गया है। वायुमण्डल पर भी गहरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण तापक्रम अर्थात् गरमी-सरदी की स्थिति असहनीय होती जा रही है।

आज यह देखा जा रहा है कि विश्व में अधिक गरमी के कारण हिमालय फटकर समुद्र में गिरते जा रहे हैं, जंगलों में अनिकांड के कारण पशु-पक्षी नष्ट होते जा रहे हैं। समुद्र के तापमान में परिवर्तन होने से सामुद्रिक व्यापार में क्षति पहुँच रही है और Blue Economy अर्थात् सामुद्रिक अर्थव्यवस्था में बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं।

संसार में बाढ़, तूफान भू-स्खलन, आंधी, ज्वालामुखी, विस्फोट और आकाश मण्डल में हलचल मची हुई हैं, जिनके दुष्प्रभाव से हम प्रभावित हैं। ऐसी गम्भीर स्थिति में हमें अपने पर्यावरण की रक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अगर हर व्यक्ति अपने आस-पास को साफ़-सुथरा रखे, अपने कर्म क्षेत्र को पवित्र रखने का प्रयत्न करे तो हम देश का जलवायु पवित्र बनाने में सफल होंगे।

आज के इनसान अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। उद्योगपति अपने औद्योगिक क्षेत्रों में गैस आदि के प्रयोग से वायुमण्डल को दूषित कर रहे हैं। आतंकवादी और देशद्रोही बम आदि के विस्फोट से शुद्ध वायु को नष्ट कर रहे हैं, जिन कारणों से विश्व की स्थिति दयनीय हो रही है। भयंकर रोगों का विकास हो रहा है, कितने लोग बेमौत मारे जाने लगे हैं।

तापमान में उतार-चढ़ाव होने से अनाजों के उत्पादन में कमी महसूस हो रही है। अफ्रीकी देशों में कितने लोग भूख से मारे जा रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से जनता दुखित है, अगर ऐसी स्थिति कायम रहेगी तो हमारे देश में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जीवनोपयोगी पदार्थ विदेशों से आयात करते हैं। उधर हमारे देश के जलवायु में परिवर्तन होने से यहाँ के उत्पादन आदि में गिरावट दिखाई देती है।

विश्व के राष्ट्रीय नेताओं और प्राकृतिक विशेषज्ञों ने मिलकर कई अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें लगाई हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन की समस्या को रोका जा सके। गत मंगलवार ता० 14 मई, 2024 को राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति से Climate Change Act पारित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने आस-पास के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए चेतावनी दी गई। अगर हम देशवासी इस स्वर्गरूपी द्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य को सुहावना बनाने में सहयोग देंगे तो निःस्संदेह हम अपने देश के जलवायु को पवित्र रखने में सफल होंगे।

जलवायु की शुद्धता हमारे मंगल जीवन का आधार है। सदा इस बात का ख्याल करें।

बालचन्द तानाकूर

truthful character, associates with the good, conducts himself according to the law and is assisted by the truly good and great men in the discharge of his duties." (Manusmriti 7/17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31)

#### Evil-minded king regarded as a curse

Ancient India witnessed many kings who ruined their kingdoms owing to their addiction to vices. Manu states, "A king addicted to vices arising from the love of pleasure loses his kingdom, wealth and power and even his character. Whilst one who is addicted to vices arising from anger may even lose his life. The ten vices proceeding from

love of pleasure are

1. Hunting
2. Gaming – playing with dices, gambling, etc.
3. Sleeping by day
4. Gossiping or talking of sensual subjects
5. Excess with women
6. Use of intoxicants such as alcohol, opium, cannabis indica and its products, etc.
7. Excessive indulgence in singing, playing and dancing or hearing and seeing other people do so, and
8. Useless wandering about from place to place.

(Contd. on pg. 2)



## Duties and Qualifications of Rulers

(Contd. from pg. 1)

The vices that proceed from anger are—

1. Tale-bearing
2. Violence, such as outraging another man's wife
3. Malevolence
4. Envy, i.e. mortification excited by the sight of another person's superiority or success
5. Detraction from one's character
6. Expenditure of money, etc., for sinful purposes
7. Saying unkind or hard words and
8. Infliction of punishment without any offence

Evil minded rulers make the lives of their people sorrowful. Their people also follow their footsteps and become addicted to several evils and vices. Consequently, their peace and happiness disappear. This is why sage Manu says, "Therefore, it behoves all men, especially the king, to keep aloof from hunting, drinking, and other vices, and instead to develop a good character and noble disposition and to devote themselves to the practice of virtuous deeds."

### Qualifications of Ministers and Officers

King Manu has also shed light on the qualities of Ministers, Officers and Ambassadors. He states, "Let a king appoint good, righteous and clever ministers who are natives of the country, are very brave and courageous, whose judgement seldom errs, who come from a good family and are well-versed men."

"Let him appoint good, energetic,

ic, strong, and clever officers, as many as he requires, for the due transaction of the business of the State. Under them let brave, courageous strong men of great integrity and of noble lineage fill positions involving great responsibility and risk, whilst let timid and faint-hearted men be employed for the administration of internal affairs."

"Let him also appoint an Ambassador who comes from a good family, is very clever, perfectly honest, able to read the inmost thoughts of others and to foretell future developments and events by observing the expression of faces and other significant signs and acts and is well-versed in all the branches of knowledge."

He alone is a fit person to be appointed an Ambassador who is very much devoted to politics, loves his country with all his heart, is of irreproachable character, pure in heart, highly intelligent and endowed with an excellent memory, who can adapt himself to the manners and customs of different countries and different times, is good looking, fearless and a master of elocution."

(Manusmriti 7/54, 56, 57, 60, 61, 62, 64)

The great sage Manu has also shed light on the duties of Ministers. He states that, "The power to enforce the law should be vested in a minister who should see that the law is administered justly."

Hence, chapter six of the *Satyarthaprakāsha* emphasizes that, where the kings, ministers and other officers are all righteous and law-abiding, only in that country will peace, prosperity and happiness prevail.

O.N. Gangoo

## मानव शरीर

### आचार्य जितेन्द्र पुरुषार्थी

ओ३म् अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योद्ध्या।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥

शब्दार्थः — यह मानव शरीर (अष्टाचक्राः)

आठ चक्र और (नवद्वारा) नौ द्वारों से युक्त

(देवानाम्) देवों की (अयोध्या) अर्थात् यह

शरीर जो कभी पराजित न होने वाली (पूः)

नगरी है (तस्याम्) इसी पुरी में (ज्योतिषा)

ज्योति से (आवृतः) ढका हुआ, परिपूर्ण

(हिरण्ययः) हिरण्यमय, स्वर्णमय (कोशः)

कोश है यह (स्वर्गः) स्वर्ग है। आत्मिक

आनन्द का भण्डार परमात्मा इसी में निहित

अर्थात् विराजमान है।

अथर्ववेद के इस मन्त्र में मानव शरीर की

सुन्दर रचना का चित्रण किया गया है। मन्त्र में कहा

गया है कि हमारा शरीर आठ चक्रों और नौ द्वारों

वाली एक अभेद नगरी है। वे आठ चक्र इस प्रकार हैं—

1. मूलाधार चक्र, गुदामूल में,

2. स्वधिष्ठान चक्र, मूलाधार से कुछ ऊपर,

3. मणिपूर चक्र, नाभी में,

4. अनाहत चक्र, कण्ठमूल में,

5. विशिद्धि चक्र,

6. ब्रह्मरन्ध्र चक्र, जिह्वामूल में,

7. आज्ञा चक्र दोनों भ्रुवों के मध्य,

8. सहस्रधार चक्र मस्तिष्क में और नौ द्वार हैं, दो

आँखें, दो नासिका छिद्र, दो कान, एक मुख,

दो मल और मूत्र के द्वार।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने कहीं भी

इनका उल्लेख नहीं किया है, ऊपर लिखे विचार


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती के हैं। इस नगरी में

जो हिरण्यमयकोष हृदय में है, वहाँ ज्योति से परिपूर्ण

आत्मिक आनन्द का भण्डार, वह सर्वव्यापक

परमात्मा निवास करता है। शरीर की गति को

अज्ञानी दुर्बलेन्द्रिय लोग नहीं समझ सकते। शरीर



के भीतर चेतन जीवात्मा है। जीवात्मा के बाहर-भीतर ज्योति स्वरूप परब्रह्म का वेदवेत्ता योगीजन ही साक्षात् करते हैं।

परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही शरीर दिया। मनुष्य का यह शरीर इसके निवासी जीवात्मा के कर्म के अनुसार ही प्राप्त हुआ है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमने इस नगरी की सुरक्षा नहीं की तो फिर परमात्मा पुनः यह शरीर नहीं देगा। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह परमात्मा के द्वारा दिये इस सुन्दर रथ की रक्षा करे और इसके माध्यम से आत्मिक उन्नति करे, यह तभी सम्भव है जब यह नगरी निरोग एवं स्वस्थ होगी।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के दस नियम बनाए। उनमें छठा नियम लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। महर्षि ने भी शरीर की उन्नति को पहले रखा है। यह कैसे सम्भव है? हमारे ऋषियों ने इसके लिए एक सुन्दर तरीका बताया है। शरीर को ठीक रखने के तीन आधार हैं— 1. आहार, 2. निद्रा, 3. ब्रह्मचर्य। आइये, इनपर विचार करते हैं।

(शेष भाग पृष्ठ ३ पर)

## आर्यसमाज और मैक्समूलर

सत्यदेव प्रीतम, जी.ओ.एस.के., आर्य रत्न, सहसम्पादक

स्वामी दयानन्द जी के निर्वाण के पश्चात् जब भारतवर्ष में खासकर पंजाब में आर्यसमाज की धूम मचने लगी तो भारत के बाहर इंग्लैण्ड की राजधानी लण्डन में जो भारतीय रहते थे, उन लोगों ने आर्यसमाज की स्थापना की। उसमें सम्मिलित होने लगे भारतीय विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाने के लिए वहाँ रहते थे और स्वामी जी के विचारों से सहमत थे आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में शामिल होते थे, भाषण देते थे और यदा-कदा लेख लिखकर पढ़ते थे। वे ऐसे कार्य करते थे मानों संसार को आर्य बनाने का बोझ उन्हीं पर था।

धीरे-धीरे अधिवेशनों में कुछ अंग्रेज विद्वान् एवं विचारक भी उपस्थिति देने लगे। भारतीय सभासदों ने इनेगिने लोगों को आमन्त्रित किया। एक अधिवेशन में एक नामी विद्वान् मिस्टर एफ.पिन्कोट ने खड़े होकर एक व्याख्यान दिया। जो कुछ कहा था 25 जून सन् 1886 की 'आर्य पत्रिका' में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया था—

*He himself has read Rigveda and discovered the most nature method of its arrangements. There must be no doubt of its contents being true. He can without hesitation endorse the speech of Lala Roshan. One who delivered a speech on the same occasion.*

(Arya Patrika 27 July 1886)

उसी सिलसिले में और एक अंग्रेज विचारक को आमन्त्रित किया गया था, वे थे महाशय मैक्समूलर, जिसका नाम संसार भर के सतर्क आर्यसमाजी को मालूम था। उन्होंने आमंत्रण पत्र के उत्तर में लिखा था—

आक्स फोर्ड, ता 10 14 मई 1887

"प्रिय महाशय, लन्दन आर्यसमाज के जल्से में शामिल होने और योग्य सेवा करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मुझे मालूम है कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज के उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ और अच्छे थे। उन्होंने अपने देशवासियों को बड़ा लाभ पहुँचाया है और अगर यह महात्मा कुछ अधिक असें तक ज़िन्दा रहते तो भारत खण्ड के लोगों को और अधिक लाभ पहुँचाते। जो कुछ वह करना चाहते थे, वह अब आर्य पुरुषों को करना चाहिए। केवल वेद मतावलम्बी होकर सन्तुष्ट न होना चाहिए, बल्कि स्वामी जी के अनुकूल उससे आगे कार्य करना चाहिए, जहाँ तक स्वामी जी कर गये हैं। मैं हर तरह से इस कार्य में आप लोगों की सहायता करने को राजी हूँ। आजकल ऑक्सफोर्ड में परीक्षा के निरीक्षण के कार्य में लगा हुआ हूँ और जब परीक्षा समाप्त होगी, तब अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मेरे घर के लोग इंग्लिसतान से चले गए हैं। परीक्षा के कारण मैं उनके साथ न जा सका। परीक्षा की तैयारी में लगे रहने के कारण मैं अभी समय नहीं दे सकता, किसी दूसरे समय अवश्य आर्यसमाज के सभासदों से परिचय का लाभ प्राप्त करूँगा।"

हमारे पाठकों को मालूम होना चाहिए कि मैक्समूलर को अंग्रेज लोग इस लिए ले गये थे कि वे उन्हें वेदों व वैदिक साहित्य से परिचित करा सकें, क्योंकि वे भारत में राज करना चाहते थे, तो उन्हें जानने की आवश्यकता थी कि क्या बात है कि भारत संसार में सबसे आगे बढ़ती जाती है। अंग्रेज लोग सोचते थे कि मैक्समूलर को वेदों का सही ज्ञान था। वास्तव में मैक्समूलर, महीधर आदि भारतीयों के वेद भाष्य से परिचित



मैक्समूलर

थे। लेकिन जब स्वामी जी ने ऋग्वेद का भाष्य करके संसार के सामने रखा तो लोगों को मालूम हुआ कि जो भाष्य उनको मिला था वह कितना सही नहीं था।

स्वामी जी को उनके गुरु विरजानन्द ने वह व्याकरण पढ़ाया था, जिसके द्वारा सही भाष्य किया जा सके। दूसरी बात यह है कि स्वामी जी ऋषि नहीं अपितु महा ऋषि थे, जिसका मतलब वेद मन्त्रों का द्रष्टा याने जो वेद मन्त्रों को देख सकता है। हम तो ऋचाओं को पढ़ते हैं।

काश स्वामी जी पूरी आयु जीते तो चारों वेदों का भाष्य करके संसार को दे सकते। अन्त में विष देने वाले जगरनाथ को बोले थे, जगरनाथ तुमने मेरा काम पूरा होने से पहले मुझे मार दिया।

## ARYODAYE

### Arya Sabha Mauritius

प्रधान सम्पादक - Chief Editor

डॉ० उदय नारायण गंगू, पी.एच.डी., ओ.एस.के., जी.ओ.एस.के., आर्य रत्न

Dr Oudaye Narain Gangoo,

Ph.D., O.S.K., G.O.S.K., Arya Ratna

सम्पादक - Editor

श्री बालचन्द तानाकूर, पी.एम.एस.एम,

ओ.एस.के., आर्य रत्न

Shri Balchand Tanakoor,

P.M.S.M., O.S.K., Arya Ratna

सह सम्पादक - Sub-Editor

श्री सत्यदेव प्रीतम, बी.ए., ओ.एस.के.,

सी.एस.के., जी.ओ.एस.के., आर्य रत्न

Shri Satyadeo Peerthum, B.A.,

O.S.K., C.S.K., G.O.S.K., Arya Ratna

सम्पादक मण्डल - Editorial Team

(१) श्री मिथिल बेणीमण्डब, एम.ए., बी.एड.

Mr Mithyl Banymandhub, M.A., B.Ed

(२) डॉ० विदुर दिलचन्द, पी.एच.डी.

Dr Vidoor Dilchand, Ph.D

(३) पंडिता लीलामणि करीमन, एम.ए., वाचस्पति

Pta. Lilamunnee Kureeman, M.A., Vachaspati

इस अंक में जितने लेख आये हैं, इनमें लेखकों के निजी विचार हैं। लेखों का उत्तरदायित्व लेखकों पर है, सम्पादक-मण्डल पर नहीं।

The responsibility for any information and views mentioned in the articles rests entirely on the collaborators.

मुख्य सम्पादक

Printer : BAHADOOR PRINTING CO. LTD

Ave. St. Vincent de Paul, Les Pailles,

Tel : 208-1317, Fax : 212-9038.



## Chapter Four of the Satyarthaprakash

Chapter Four of the *Satyarthaprakash* deals with *Samāvartana* (Homecoming after the time spent in the Gurukul), the *Vivaha* (Marriage) and *Grihāshrama* (Married life).

In the words of Swami Dayananda, “Let a twice-born man, after having the consent of his Guru, return home to espouse a maid of his own class and with excellent qualities.”

For the development of this chapter Swami Dayanand Saraswati has quoted from various sources like the *Rigveda*, *Yajurveda*, *Samaveda*, *Mahabharata*, *Bhagavata Gita*, *Shatapatha Brahman*, *Manusmriti*, *Parāshara Smriti*, *Shighrododha*, *Apatambha Sutrās*, *Nirukta*, *Shāstras* and many others.

In this chapter, the author has provided proofs about the science of life, its source/origin and its termination, the right conduct of life of an individual, in his family, in an isolated group, in the society at large and all these within a framework that has been proven to withstand all the challenges in the wake of life.

Swami states as per Manu the following

- A student after fulfilling his duties as a brahmacharya / or practice of celibacy (can be) is eligible to form the basis of all true reforms.
- Someone who got the consent / permission of his teacher/Guru or preceptor can embark on this stage of life.
- An individual should be issued of a good family and be endowed with excellent qualities (physical, moral and intellectual).
- Individuals should be of the same religion/caste.
- Both individuals should not be afflicted by faults, any handicap or invalidity and diseases like Piles, Asthma, Bronchitis, Dyspepsia, Epilepsy, Leprosy among others as these diseases could be transmitted to offsprings.
- The girl should not be descended on her mother's side within generations and she must not be of the same *gotra* name as her father's.<sup>1</sup>
- The minimum age for the girl is 16 years and that of the boy is 24 years. Although permissible, these ages are considered as inferior for marriage. This is so as these individuals do not necessarily have a well-balanced maturity to assume such a big responsibility of the Grihasthi.
- The medium marriage qualities the girl of 18 to 20 years of age and that of the boy to be 35 years of age is called the superior marriage.  
*16 to 24 years of age for the girl/maiden*  
*25 to 48 years for the man*
- Manu ordains that the husband and

wife should bear mutual contentment to lead an exemplary life that is full of happiness, wealth and honour.<sup>2</sup>

Whereas Swami Dayanand Saraswati emphasises on the bride and bridegroom to accept this contract (marriage) with the full mutual consent of each other so as to prevent eventual disagreement or begetting children of inferior order.

The Rig Veda emphasises on perfect / good practice of Brahmacharya before getting into marriage stage (individual should be endowed with full youth, be strong in body, be energetic of quick perception and action, etc) so as to be able to enjoy life up to a good old age.<sup>3</sup>

Manu further lays emphasis on persons of mutually suitable qualities, characteristics and temperament (knowledge, disposition of good character, beauty, strength, built of body etc, to get married.

Swami Dayanand Saraswati favours marriage to be ‘Swayamvara’ or marriage by choice which for him stand as the best form of marriage.

Swamiji was against unmatched marriage and emphasised that marriage by choice should be *Varna Dharma Vyavastha*, that is, based on qualifications, accomplishments, and character of the individual.

### Happiness in conjugal life

According to Manu, happiness in a married life is mainly based on the contentment of the wife with her husband. She must also be honoured, provided with good food, nice clothes and ornaments and especially with good conduct of her husband. It is said that when she is happy, the whole family enjoys felicity.<sup>4</sup>

Manu, however, mentioned certain duties if a woman wants to bring equilibrium in the responsibilities of a happy conjugal life, such as she should attend to household chores and do her household duties with dexterity.

Monitor her expenditure / manage the family income and expenditure (do the household budget).

100 % nice food should be consumed to ensure good health of her family (bodily and mentally).

Treat her servants properly and keep tidiness and cleanliness in/around the house among others.

(.....to be continued)

**Omduth Runglall**

### Notes and References

- 1 In the National Medical Association, Washington, Dr S.M. Bevis made the shocking revelation about 10 % of deaf and dumb, over 5 % of the blind and nearly 50 % of idiotic in the state are offsprings of kindered parents.
- 2 Manu 111/62
- 3 Rigveda 1/178/1
- 4 Manu 111/56,57

## विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार

सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुल्लास पर आधारित निम्नलिखित लेख पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। वैदिक धर्म एक ऐसा संगठित धर्म है, जिसने मानव जीवन को नैतिक, सामाजिक सुव्यवस्थित तथा आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए एक एकीकृत योजना प्रदान किया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राचीन ऋषियों ने बुद्धिमानी पूर्वक संस्कार नामक शुद्धीकरण समारोहों का एक व्यावहारिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया। यह प्राचीन आर्यों का उच्च विचार था और प्रत्येक संस्कार जानबुझकर जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया था। मनुष्य के शरीर को शुद्ध करने के लिए और आत्मा के गुणों को विकसित करने के लिए सोलह श्रेणीबद्ध समारोहों को व्यवस्थित

रूप से तैयार किया गया था। आज शुद्धीकरण समारोह को विशुद्ध रूप से धार्मिक संस्कारों के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अपनी माँ के गर्भ से लेकर धरती माँ की श्मशान भूमि के गर्भ तक संस्कार एक मनुष्य को परिरक्षित करता है। प्रत्येक संस्कार एक महत्वपूर्ण घटना अथवा उत्सव के साथ मेल खाने वाला एक सार्थक कार्य है, जो किसी व्यक्ति को एक ऊँचे उद्देश्य, एक सार्थक कार्य या एक बेहतर स्थिति के लिए उपयुक्त बनाता है।

तदनुसार, मानव-जीवन को उच्च, दिव्य, महान् एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए महर्षि दयानन्द ने हम हिन्दुओं के लिए सोलह संस्कारों का विधान किया

## मानव शरीर

### (पृष्ठ २ का शेष)

प्रथम आहार अर्थात् जो हम खाते हैं, वह कैसा होना चाहिए ? आयुर्वेद के अनुसार आहार (हितभुक्, ऋतभुक् एवं मितभुक्) सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए और हमारी पाचन शक्ति के अनुसार होना चाहिए, ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के अनुकूल हो। वह हमें शक्ति एवं निरोगता प्रदान करे न कि हमारे शरीर के प्रतिकूल व रोग बढ़ाने वाला हो।

परमात्मा ने मनुष्य के भोजन के अनगिनत पदार्थ इस संसार में पैदा किये हैं, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। नाना प्रकार के फल, दालें, अन्न, सब्जियाँ और रस जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं में हमें प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार इनका सेवन करें। ऐसा भोजन न करें जो शरीर के प्रतिकूल हो या हमें रोगी करने वाला हो। दूसरा ऋतु के अनुसार जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं, इनका ग्रहण करें। बासी या सड़ा हुआ भोजन न करें। यदि ऐसा करते हैं तो वह भोजन हमें रोगी बना सकता है। भोजन भूख लगने पर ही खायें। बिना भूख के खाना व बार-बार खाना भी शरीर को रोगी बनाता है। तीसरा है अपनी भूख से कुछ कम भोजन करना भी हमें निरोग तथा स्वस्थ रख सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात् जीवन में किसी भी प्रकार की अधिकता करना लाभकारी नहीं है, इसलिए भूख से ज्यादा न खायें।

शरीर को निरोग व स्वस्थ बनाने के लिए उचित नींद भी जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम छः घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए इससे कम या ज्यादा

नहीं। रात्रि को दस बजे सोकर प्रातः चार बजे जाग जाना चाहिए, उठने के पश्चात् अपनी दिनचर्या में योगासन, प्राणायाम व कुछ व्यायाम आदि अवश्य करना चाहिए, जिससे शरीर ठीक रहे। रात को अधिक देर तक जागना व प्रातः देर तक सोना भी शरीर को रोगी करता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए।

जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत आवश्यक है अर्थात् अपनी समस्त इन्द्रियों को अपने वश में रखना। ब्रह्मचर्य पालन भी इस शरीर को निरोग व स्वस्थ रखने में बहुत आवश्यक है। हम जो भोजन करते हैं, उससे हमारे शरीर में जो धातु बनते हैं वे शरीर को बल प्रदान करते हैं और निरोग रखने में परम सहायक हैं। जीवन में मनुष्य को सृष्टि नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है। शरीर यदि रोगी होगा तो हम संसार का कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकेंगे। इसलिए शरीर को निरोग व स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को ठीक रखें।

शारीरिक उन्नति के पश्चात् आत्मिक उन्नति का नम्बर आता है। इसके लिए मनुष्य को परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और आपसना वेदोक्त रीति से करनी चाहिए एवं प्रातःकाल परमात्मा का ध्यान, सन्ध्या, यज्ञ भी करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन पूरी श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ कुछ समय वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय भी आवश्यक करें। ऐसा करने से हमारी आत्मा बलवान होगी, जब हमारा शरीर व आत्मा बलवान होंगे, तब ही हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। जब हमारा शरीर व आत्मा निर्बल व कमजोर हो, तब हम अपनी व संसार की किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, इसलिए यह आवश्यक है कि हम पहले शारीरिक, आत्मिक उन्नति प्राप्त करें, तब सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें।

**आ० जितेन्द्र पुरुषार्थी**



है, क्योंकि संस्कार जीवन को मन्त्र-सूत्रों तथा विधि-विधानों से आबद्ध करता है। इसीलिए सभी संस्कार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सभी में विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विवाह संस्कार मानव जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम का वह करवट है, जिससे एक युवा अथवा युवती के नवजीवन का सूर्योदय एक दाम्पत्य जीवन में होता है।

यह एक व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण सन्धि है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध और समर्पण का प्रतीक होता है। विवाह के द्वारा, दो व्यक्तियों के बीच आत्मिक सम्बन्ध बनता है, जो उन्हें जीवन भर के लिए एक साथ बाँधता है। इसके साथ ही, विवाह एक सामाजिक संरचना को भी स्थापित करता है, जिसमें परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच सम्बन्ध और नेतृत्व का आधार बनता है।

विवाह की विधियाँ और समारोह समुदाय की एकता और अभिवृद्धि को दिखाते हैं। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और

समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। विवाह एक सामाजिक अनुबन्ध न होकर एक संस्कार है। स्वामी दयानन्द ने विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बताया। यह एक अविभाज्य धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिसमें दो अलग-अलग परिस्थितियों में पैदा हुए और पले-बढ़े लोगों का मेल होता है। रिश्तेदारों, मेहमानों तथा अलौकिक शक्तियों को साक्षी बनाते हुए वर और वधू बने युवा और युवती एक दूसरे की प्रतिनिष्ठा और समर्पण की प्रतिज्ञा लेते हैं।

स्वामी दयानन्द जी ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन-साथी बनने के लिए वर और वधू दोनों में कई बातें समान होनी चाहिए तथा उनके दृष्टिकोण, रुचि एवं स्वभाव भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ परिवार, अम्, लक्षण, चरित्र, जीवन-शैली और शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

विवाह संस्कार को सफल, चिर स्थायी तथा सुखद-समृद्ध बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच दैविक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकरूपता होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्वामी आज भी हिन्दू धर्म विवाह को सुपरिभाषित धार्मिक अर्थ और नैतिक प्रतिबन्धों के साथ एक अटूट बन्धन के रूप में बताते हैं। विवाह-धार्मिक जीवन और धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए समान रूप से दो आत्माओं का मिलन है। अपनी पुरानी परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दू विवाह करते हैं, जिसे यज्ञ अग्नि कहा जाता है, जो अशुद्धियों को जलाने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने का प्रतीक है।

यज्ञ अग्नि को साक्ष्य मानकर वर के स्वागत से लेकर ‘मधुपर्क’, ‘गोदान’, ‘कन्यादान’, ‘सप्तपदी’ आदि विधियों को सम्पन्न करते हुए वर और वधू—दोनों नैतिक दायित्व निभाते हुए, तलाक से कोसों दूर रहकर सही आचरण अपनाते हुए धार्मिक उद्देश्य के लिए एक दूसरे का साथ देते हुए सुखद-समृद्ध जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए वर और वधू के इस नये जीवन के लिए विवाह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कार है।

**विक्रम पेरतोव**



## In My View

## Seize the Day

As we experience the trials and tribulations of life the days merge into each other.

We notice that they follow one another but are different.

And thus, an unhappy event may follow a day of great joy. Each day brings with it its share of hope and disillusion.

My father was seriously ill in his late sixties and was following treatment in the hospital.

I was aware that he could breathe his last at any moment. They were hard times.

It so happened that as I was perusing an issue of the *Reader's Digest*, I came to a thought which still appeals to me.

It mentioned that every morning when we wake up in good health we have to be grateful to the Almighty. He has granted us another day. We have to spend it in such a way that it is not wasted.

And there are many ways of doing so. Some people are altruistic and generous.

We can thus devote some of our precious time to those who are lonely and suffering. We can pay a visit to the homes to bring some happiness to the life of the inmates.

We should never be content with our own welfare.

Mithyl Banymandhub

## Readers' Forum

## पाठक-मंच

## दर्द

## तलुए और एड़ी के दर्द के कारण

मोटापा, खराब फ़िटिंग वाले जूते पहनना, कठोर सतहों पर खड़े होना, दौड़ना या कूदना, एड़ी पर चोट लगना, नसों का विस्तार होना, मधुमेह गठिया, तनाव, Toxin की मात्रा बढ़ना, आइरन की कमी होना, Vitamin B12 की कमी होना आदि।

**राहत के उपाय** – व्यायाम करना, आराम करना, बर्फ़ की सेंकाई करना। अदरक की चाय या काढ़ा पीना। **तलवे में दर्द होना** – डायबिटीज में झुनझुनाहट, एक बीमारी जिसको हम Chacoit Marie Tooth कहते हैं। अंगों का सुन होना, क्रेंप होना आदि, इसमें भी B.P. बढ़ जाना या कम होना, मोटापा (Fat) की अधिकता तांबे के बरतन में रखा पानी पीना, नारियल तेल में कपूर डालकर मसाज करना, एलोवेरा तेल का प्रयोग करना। मुसबर का लेप लगाना।

**घुटनों में दर्द होना** – दूध, दहीखाना, दूध में हल्दी डालकर पीना, सूखा फल, कच्चा फल, हरी सब्जियाँ खाना सरसों के तेल, तिल के तेल में कपूर, हींग डालकर मसाज करना, हरे पत्तों का जूस पीना, पृथ्वी पर नंगे पैर चलना। हाथ के बीचोबीच को प्रेस करना पेठा, एलोवेरा का जूस पीना।

मेथी, आजवाइन के तेल से मसाज करना।

मेथी + पानी पीना। शरीर में किसी भाग में दर्द हो। इन बातों को अवश्य प्रयोग में लाना राहत मिलेगा।

डॉ० विनय सितिजोरी

X X X X X X

## Let Us Protect Our Environment

Dear Chief-Editor,

We cannot say that we have not been sensitised about the necessity of keeping our environment clean. It is a necessity to do so.

Through the media we have been told how substantial damage has already been caused to the coral because of the waste that is dumped in the sea.

I do not know to what extent our coral reef has been impacted but I shudder to think of what will happen if ever this becomes a reality.

Our economy depends to a great extent on tourism. What will be the result if we cannot offer tourists the pleasures of swimming in our beautiful lagoons?

Steps have been taken to have the dead coral replaced by living ones. It is up to us to prevent further damage.

Yours sincerely,

Satyadev Bowan  
(Camp Fouquereaux)

## The Music of Nature

*'One should always be ready to accept truth and give up untruth'*

*Have you ever heard Nature's Song?  
Listen! You will hear it all day long  
At dawn, you hear the bird chirping,  
In sweet melody altogether.  
The clear blue stream, sings as it flows  
The strong wind whistles as it blows  
The buzzing of insects- create an  
atmosphere of drowsiness  
And the other creatures in their shrill  
voices  
All the time sing with a great voice and  
noise  
At dusk, you hear the whisper of the  
wind,  
Among the leaves  
An owl breaks the absolute silence  
Stirring the entire night breeze.  
Dew drops fall silently  
A noise you hardly hear!  
How lovely, pretty, beautiful, fascinating  
And enchanting is nature's music to the ears!*

Sookraj Bissessur

नवजागरण लानेवाला  
सत्यार्थप्रकाश

जयपति पुनीत विद्यावाचस्पति बी.ए., बी.एड



आधुनिक हिंदी के मानक गद्य पुस्तक **सत्यार्थ प्रकाश** का संशोधन 136 साल पहले सन् 1882 ईसवी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उदयपुर में जहाँ इस पुस्तक के शोधन-स्थल पर आज सत्यार्थ प्रकाश भवन बना हुआ है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक इसे देखने जाते हैं। हिंदी साहित्य के

इतिहासकारों ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी के प्रारंभिक ग्रंथों में माना है।

## इस ग्रंथ के प्रेरणा-श्रोत

महाभारत युद्ध के पश्चात् भारत एक दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा था। जितने बड़े-बड़े ऋषि महर्षि थे उन सभी को युद्ध में सक्रिय भाग लेना पड़ा था। जिन्हें हम ऋषि-महर्षि कहते हैं वे कोई साधु-संत नहीं थे, बल्कि बड़े-बड़े वेदज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। आज की भाषा में कहें तो वे उच्च कोटि के इंजीनियर और डॉक्टर थे। महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था, जो पूरे भारत को ले डूबा। सारे विद्वान् उस युद्ध में मारे गए। जो विद्वान् बच गए थे, वे अपनी स्वार्थसिद्धि में लगे रहे। ढोंग-पाखंड ने मानो अपना घर बना लिया।

कुछ समय बाद व्यापार करने के लिए मुगल लोग भारत पहुँचे। उनको भारतीयों की कमजोरी परखने में देर न लगी। वे आए तो व्यापार के लिए थे, पर मौका पाकर वहीं बस गए और भारत के कोने-कोने में फैलकर वहीं राज्य करने लगे। उनका असली मक़सद अपनी कौम बढ़ाना बन गया। शब्दजाल बिछाकर व लालच दिखाकर भारतीयों का धर्मपरिवर्तन कराके मुसलमान बनाने लगे। जो मुसलमान बनने से इनकार करते, उन्हें या तो मार डालते या जबरदस्ती मुसलमान बना लेते। इस तरह तलवार के बल पर लाखों की संख्या में हिंदुओं को इस्लाम मत में परिवर्तित किया गया।

समय ने करवट बदली। मुगल लोग तो दूर हो गए इनके स्थान पर अंग्रेज आए। इनके धर्म परिवर्तन करने का तरीका कुछ अलग था। इनके प्रचारक बड़ी मीठी बोली बोलकर, क्रिश्चन मत का महत्त्व बतलाते। यह भी कहते कि जिजस क्राइस्ट बड़ा ही उदार दिल के हैं। वे आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। लालच दिखाकर, गरीबों की सहायता करके धन का लालच देकर उन्हें अपनी ओर खींच लेते।

धीरे-धीरे भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार और क्रिश्चन मत की ओर खींचते चले गए। कुछ लोग धन-लोभ या पद-लोभ के कारण अंग्रेजों के समर्थक बने तो कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने में गर्व महसूस करते थे। दूसरी ओर कुछ पाखंडी भारतीयों को अंधविश्वास में जकड़ रहे थे। छूआछूत, ऊँच-नीच, जन्मत वर्ण-व्यवस्था, बालविवाह, विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों और गैर ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित रखना आदि सामाजिक प्रकोपों से लोग परेशान होने लगे।

## समय बड़ा बलवान है

ब्रिटिश सरकार ने तो भारत को आर्थिक और राजनितिक उपनिवेश बना लिया। दूसरी ओर पाखंडियों की जाल में फँसे भारत की जनता तिलमिला उठी। ऐसे में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जागृत होना स्वाभाविक था। इनके निराकरण के लिए सत्यार्थप्रकाश एकमात्र सहारा बना, जिसमें मानव को ऊँचा उठाने का संपूर्ण ज्ञान था।

भारत को जगाकर अमृत पिलानेवाले महर्षि दयानंद प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने अखंड भारत बनाने का उद्घोष किया। उनका धर्म कोरा कर्मकांडी संप्रदाय नहीं था। वे राजधर्म के उपासक व प्रतिपादक थे। उनके राजधर्म के मंतव्य थे स्वराज्य और अखंड सार्वभौम साम्राज्य। उनकी यह कल्पना और भावना उनके समस्त साहित्य और जीवन में ओत-प्रोत है।

यह १९वीं शताब्दी में उठ खड़े हुए सामाजिक सुधार आन्दोलनों के रूप में सामने आए। ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने आधुनिक भारत में प्रारम्भ हुए पुर्नजागरण को नई

दिशा दी। साथ ही भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृति को मौलिक रूप में स्वीकार करने, पश्चिमी प्रभाव को विशुद्ध भारतीयता यानी 'वेदों की ओर लौटो' के नारे के साथ समाप्त करने तथा सभी भारतीयों को एकताबद्ध करने के लिए सत्यार्थप्रकाश उनका प्रेरणा स्रोत बना।

महर्षि दयानंद और उनका सत्यार्थप्रकाश का समाज-सुधार में बड़ा योगदान रहा। महर्षि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखण्डों का खण्डन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश ने समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देश-भक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रा संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में थे।

ऋषि के इस कार्य से लखनऊ आदि राज्यों के सैनिकगण बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने दिल खोलकर स्वामी जी का साथ दिया।

महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अंग्रेज विद्वान् शेरले ने भी लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश ने अंग्रेजी सरकार की जड़े हिला दीं। सत्यार्थ प्रकाश में योगीराज श्रीकृष्ण के सत्य स्वरूप का वर्णन है। वीर सावरकर के शब्दों में सत्यार्थप्रकाश ने हिंदू जाति की ठंडी राँगों में उष्ण रक्त का संचार किया। सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन के अध्यक्ष चौधरी लाजपत राय आर्य ने कहा कि सत्यार्थप्रकाश की रचना का मुख्य प्रायोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादित करना है। सत्येन्द्र मोहन कुमार ने कहा कि सत्यार्थप्रकाश अर्थात् सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। एक बैठक में कुमारी अमर कौर ने कहा कि आज के समय में ऐसा ग्रंथ युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है।

## अंग्रेजी सरकार की कुछ प्रतिक्रियाएँ

इंद्रजित् शाहजहाँपुर की जिला-कचहरी में काम करता था। उसने बीमारी के बहाने छुड़ी ली। वह आर्य समाज का उत्साही कार्यकर्ता था उसे आज्ञा दी गई कि या तो समाज का प्रचार करे या सरकार की सेवा। दोनों में से एक को चुनना होगा।

इन्दौर आर्य समाज का प्रधान लक्ष्मणराव शर्मा पुलिस-इन्स्पेक्टर जनरल के कार्यालय में हैंड अकाउंटेंट था। उसने समाज के जुलूस की आज्ञा माँगी। इस पर उसे समाज छोड़ देने को कहा गया। ऐसा न कर सकने के कारण उसने सरकार की नौकरी छोड़ दी।

इस से स्पष्ट है कि आर्य समाजी होना उन दिनों कितने जोखिम का काम था। आर्य समाजी कुछ बहुत धनवान् नहीं थे। उनकी आजीविका साधारण थी। परन्तु अब वह साधारण आजीविका भी सुरक्षित न थी। धर्म उसकी भी बलि माँगता था। सचमुच वे लोग धन्य थे, जिन्होंने धन की, जन की तथा मन की यह बलि खुशी-खुशी चढ़ा दी। उनका वह धर्म बड़ा ही बहुमूल्य था। किसी को जेल में डाल दिया गया तो किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कि वे जनता को सत्य की राह पर चलाना चाहते थे, वे आर्य समाजी थे। किसी के बाल बच्चों तक की रोटी छीन ली गई, इसलिए कि वे वेद और स्वामी दयानंद के कार्यों में हाथ बँटाना चाहते थे। यह धर्म-भक्ति कितनी महँगी पड़ी! यह कितने आत्मोत्सर्ग से कमाई गई थी!

हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से धर्म की रक्षा की है। स्वामी दयानंद इसकी रक्षा में बलिदान हुए। कितने महापुरुषों ने धर्म की रक्षा में जान गँवाई। इनकी याद करें और धर्म-रक्षा के लिए कुछ तो समय निकालें।